

श्री कृष्ण आरती
आरती युगल कशोर की कीजै ।
राधे तन मन धन न्यौछावर कीजै ॥
रवा शशाकोटि बदन की शोभा ।
ताहनिरिख मेरो मन लोभा ॥
गौर श्याम मुख नरिखत रीझै ।
प्रभु को रुप नयन भर पीजै ॥
कंचन थार कपूर की बाती ।
हरिआए नरिमल भई छाती ॥
फूलन की सेज फूलन की माला ।
रत्न सहिसन बैठे नन्दलाला ॥
मोर मुकुट कर मुरली सोहे ।
नटवर वेष देख मन मोहे ॥
ओढ़े पीत नील पट सारी ।
कुंज बहारी गरिविर धारी ॥
श्री पुरुषोत्तम गरिविर धारी ।
आरती करत सकल ब्रज नारी ॥
नंदनंदन वृषभानु कशिोरी ।
परमानन्द स्वामि अवचिल जोरी ॥